

**APIS INDIA LIMITED**

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India

**T** +91 11 4320 6650 **F** +91 11 2571 3631**E** mail@apisindia.com **W** apisindia.com**AIL/CS/2022-23/287****November 02, 2022**

To  
The Manager,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400001

**Scrip Code: 506166****Subject: Submission of Newspaper Cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Monday, November 14, 2022.**

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Monday, November 14, 2022 as published in Financial Express and Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

**For APIS India Limited**

**Amit Anand**  
(Managing Director)  
Investor Email: [mail@apisindia.com](mailto:mail@apisindia.com)

**Encl: a/a**

**CA PRASHANT JAIN (INSOLVENCY PROFESSIONAL)**  
IBBI Regd. No. IBBI/PA-001/IPP01368/2018-2019/12131  
Regd. off. A-501, Shanti Heights, Plot No. 2,3,9b/10, Sector 11,  
Koparkhane, Navi Mumbai - 400709, MH.  
Regd Email ID: prashantjain@gmail.com

**NOTICE OF HEARING TO THE RESPONDENTS**  
**Re.: BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,**  
**MUMBAI (COURT IV)**

**COMPANY PETITION NO. (IB) 3060(MB)/2019**

Micromax Informatics Limited ... Operational Creditor  
Vs  
Goody Ventures India Private Limited ... Corporate Debtor

**IA No. 1154 of 2021**

Prashant Jain, Resolution Professional of  
Goody Ventures India Private Limited ... Applicant  
Vs

1. Natural Life Speciality Private Limited  
Shop No. F-7, 1st Floor, Sacred World Mall,  
Warwadi, Pune, Maharashtra: 411 040

2. Mr. Anil Atmaram Batra (Chairman)  
102 Lunawat Classics, ICS Colony,  
Sn 132/B Shivaji Nagar, Pune - 411005

3. Mrs. Samyukha Bokha (Shareholder)  
W/o Sureddy Venkat - 8-7-92, Hasthinapuram  
North, Near Santoshmatha Temple, Karamghat,  
Saroornagar, K. V. Rangareddy, Telangana - 500 079

4. Mr. C.K. Nandgopal (Shareholder)  
C/O C.R. Krishnamurthy  
65/29, 3rd Main Road, Gandhi Nagar,  
Adhyar, Chennai, Tamilnadu - 600020

... Respondents

**IA No. 1559 of 2021**

Prashant Jain, Resolution Professional of  
Goody Ventures India Private Limited ... Applicant  
Vs

1. Anil Atmaram Batra (Suspended Director)  
(also a Director of Altmaya Infrastructure  
Private Limited) 102, Lunawat Classics,  
ICS Colony, Sn 132/B, Shivaji Nagar, Pune: 411 005

2. Deepak Batra (Key Managerial Person)  
Flat No. 701, B-1, Naren Hills, Near Clover Heights,  
Azad Nagar, Wanwori, Pune: 411048

Also at:  
Deepak Batra (Key Managerial Person)  
as Proprietor of Super Sales  
Office No. 148, 1st Floor, Clover Centre,  
D-1 Wing, 7 Meledina Road, Camp Pune,  
Pune, Maharashtra: 411 001

3. Mrs. Manisha Anil Batra (Suspended Director)  
102, Lunawat Classics, ICS Colony,  
Sn 132/B, Shivaji Nagar, Pune: 411 005

4. Mr. Balraj Batra (Suspended Director)  
(also a Director of Altmaya Infrastructure  
Private Limited) Patil Heritage, Flat No. 16/17,  
Near M.S.E.B. Colony, Bhosale Nagar, Pune: 411 007

5. Mrs. Rita Balraj Batra (Suspended Director)  
Patil Heritage, Flat No. 16, Building A,  
Bhosale Nagar, Pune: 411 007

6. Mrs. Mayadevi Atmaram Batra (Suspended Director)  
A-17-18, Patil Heritage, Bhosale Nagar,  
Chatur Sungi, Pune: 411 007

7. Mrs. Sunita Sunil Kapoor (Suspended Director)  
(also a Director of Altmaya Infrastructure  
Private Limited) 16-17-18, Patil Heritage,  
Bhosale Nagar, Chatur Sungi, Pune: 411 007

... Respondents

**IA No. 1586 of 2021**

Prashant Jain, Resolution Professional of  
Goody Ventures India Private Limited ... Applicant  
Vs

1. Anil Atmaram Batra (Suspended Director)  
102, Lunawat Classics, ICS Colony, Sn 132/B,  
Shivaji Nagar, Pune: 411 005

2. Deepak Batra (Key Managerial Person)  
Flat No. 701, B-1, Naren Hills, Near Clover Heights,  
Azad Nagar, Wanwori, Pune: 411048

Also at:  
Deepak Batra (Key Managerial Person)  
Office No. 148, 1st Floor, Clover Centre,  
D-1 Wing, 7 Meledina Road, Camp Pune,  
Pune, Maharashtra: 411 001

3. Mrs. Manisha Anil Batra (Suspended Director)  
102, Lunawat Classics, ICS Colony,  
Sn 132/B, Shivaji Nagar, Pune: 411 005

4. Mr. Balraj Batra (Suspended Director)  
Patil Heritage, Flat No. 16/17, Near M.S.E.B.  
Colony, Bhosale Nagar, Pune: 411 007

5. Mrs. Rita Balraj Batra (Suspended Director)  
Patil Heritage, Flat No. 16, Building A,  
Bhosale Nagar, Pune: 411 007

6. Mrs. Mayadevi Atmaram Batra (Suspended Director)  
A-17-18, Patil Heritage, Bhosale Nagar,  
Chatur Sungi, Pune: 411 007

7. Mrs. Sunita Sunil Kapoor (Suspended Director)  
16-17-18, Patil Heritage, Bhosale Nagar,  
Chatur Sungi, Pune: 411 007

... Respondents

**Sub: Hearing Notice**

Notice is hereby given to the abovementioned Respondents that the captioned  
Interlocutory Application Nos. 1154 of 2021, 1559 of 2021 and 1586 of 2021 has been filed  
by the Resolution Professional Mr. Prashant Jain against the Respondents thereto, in the  
captioned Company Petition (CP) (IB) No. 3060(MB) 2019] under the provisions of the  
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The said Interlocutory Applications have been  
fixed for hearing before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai (Court IV)  
on 14th November 2022 at 10:30 am or so soon thereafter, when the abovementioned  
Respondents are required to remain present if they so desire.

Sd/-  
Prashant Jain, Resolution Professional of  
Goody Ventures India Private Limited

Date: 1<sup>st</sup> November, 2022

**SALE NOTICE under IBC, 2016**  
**OM SHAKTHI REENERGIES LIMITED (in Liquidation)**  
Liquidator's Office: B-421, Western Plaza, O.U.Colony, H.S.Darga, HYDERABAD-500008

**E-AUCTION**  
Sale of the Assets of M/s. Om Shakti Reenergies Limited (in Liquidation) as a  
going concern basis by the Liquidator.

Description of Assets	Price		EMD	Bid Increase Amount
	Rs. 1.78 crores	Rs. 5 Lacs		
Corporate debtor as a whole - as a going concern basis All assets of the company viz. Debtors & carry forward loss of the company if eligible under the IT Act. etc. (Excluding Land and Buildings, cash and bank balances, Plant and machinery & equipment).				

1. The sale is on "as is where is", "as is what is", "whatever there is", "without any recourse" basis. 2. The Sale will be done by the undersigned through e-Auction platform (with unlimited extension of 5 mins each). 3. For detailed terms & conditions of e-auction sale, interested Applicants/Parties may refer COMPLETE E-AUCTION PROCESS DOCUMENT available on <https://www.bankeauctions.com> or can be obtained by sending an email to the Liquidator. 4. For e-auction details, contact Mr. B.M.Ghandi, Phone No.9700333933, e-mail: [telangana@tindia.com](mailto:telangana@tindia.com) or Liquidator: [rajesh.c.irp@gmail.com](mailto:rajesh.c.irp@gmail.com). 5. Interested parties/bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid. 6. The liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify any terms & conditions of e-auction. 7. The last date and time for submission of EMD & Tender document is 5.00 pm on 17.11.2022. 8. The date and time of e-Auction is 19.11.2022 between 11:00 AM to 11:30 AM.

**Rajesh Chilla**  
IBBI/PA-001/IP-P00699/2017-2018/11226 Place: Hyderabad  
LIQUIDATOR, Om Shakti Reenergies Limited Date: November 02, 2022

**TAAL ENTERPRISES LIMITED**

CIN: L62200TN2014PLC096373  
Regd. Office: 2nd Floor, MMPDA Towers 184, Royapettah High Road,  
Chennai - 600014, Tamil Nadu | Phone: +91 44 4350 8393  
E-Mail: [secretarial@taalent.co.in](mailto:secretarial@taalent.co.in) Website: [www.taalent.co.in](http://www.taalent.co.in)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT / E-VOTING**

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No.33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No.10/2021 dated June 23, 2021, No.20/2021 dated December 8, 2021 and No. 3/2022 dated May 5, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, ("MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot notice on Tuesday, November 1, 2022 through e-mail to all its shareholders, who have registered their e-mail IDs on October 28, 2022 seeking the consent of the members through voting by electronic means to transact the business as set out in the Postal Ballot Notice dated October 18, 2022 in respect of the following resolutions:

- Approval for amendment to the Objects Clause of the Memorandum of Association of the Company (Special Resolution)
- Approval for shifting of the registered office of the Company from the State of Tamil Nadu to the State of Karnataka (Special Resolution)

In pursuance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the aforesaid MCA Circulars, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility to the members of the Company through their e-voting platform at the link <https://www.evoting.nsdl.com> for passing of the resolutions mentioned in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting commences from 9:00 AM (IST) on Wednesday, November 2, 2022, and ends at 5:00 PM (IST) on Thursday, December 1, 2022. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Please note that in compliance with MCA Circulars, there will be no dispatch of physical copies of postal ballot notices and postal ballot forms to the shareholders of the Company. Members are therefore requested to communicate their assent or dissent through the remote e-voting facility only. Therefore, those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail address submitted by following the procedure as mentioned in the said postal ballot notice.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Friday, October 28, 2022, only will be entitled to cast their votes by e-voting. The persons who are not members of the Company as on the cut-off date should treat this notice as informative only.

Mr.M.D.Selvaraj, FCS of M/s. MDS & Associates, Practicing Company Secretaries, Coimbatore has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and transparent manner. The results of the postal ballot e-voting shall be announced within 2 working days from the closure of the e-voting platform and the same shall be intimated to BSE Limited (BSE), and shall also be uploaded on the Company's website [www.taalent.co.in](http://www.taalent.co.in) and on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>.

If you have not registered your e-mail address with the company / depository you may please follow the instructions given below for obtaining login details for e-voting:

- For Physical shareholders - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email ID.
- For Demat shareholders - Please update your email ID & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).

For any grievance/ queries relating to voting by electronic means, the shareholders are requested to write an e-mail to Ms Pallavi Mhatre at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call NSDL's toll free number 1800 102 990 or Mr. Himanshu Choradiya, Company Secretary at the Company's Registered Office at 2nd Floor, MMPDA Towers 184, Royapettah High Road, Chennai - 600014, Tamil Nadu or Phone No: +91 444350 8393; or E-mail ID: [secretarial@taalent.co.in](mailto:secretarial@taalent.co.in).

The Notice of the Postal Ballot is available on the Company's website [www.taalent.co.in](http://www.taalent.co.in), NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com> and on the website of the BSE Limited [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For TAAL Enterprises Limited  
Sd/-  
Himanshu Choradiya  
Company Secretary

Place : Pune  
Date : November 2, 2022

**TATA MOTORS LIMITED**  
Registered Office: Bombay House, 24, Homi Modji Street, Mumbai - 400 001.  
Website: [www.tatamotors.com](http://www.tatamotors.com) E-mail: [inv\\_rel@tatamotors.com](mailto:inv_rel@tatamotors.com)  
Corporate Identification No. (CIN) - L28920MH1945PLC004520

**Notice**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS/CIR/P/2019/115 dated October 22, 2019 and FAQs for Listing of Commercial Papers (CPs) that the Record and Redemption of Commercial Papers issued and listed on Wholesale Debt Market Segments of National Stock Exchange of India Limited have been fixed as under:

ISIN of Security	Security Description	Listed on	Record Date	Redemption Date
INE155A14SM4 (CP 590)	₹300 crore. Date of Maturity: November 30, 2022	NSE	November 29, 2022	November 30, 2022
INE155A14SN2 (CP 591)	₹200 crore. Date of Maturity: December 30, 2022	NSE	December 29, 2022	December 30, 2022

For Tata Motors Limited  
Sd/-  
Maloy Kumar Gupta  
Company Secretary

**Mumbai**  
November 1, 2022

**J. L. Morison (India) Limited**  
(CIN: L5109WB1934PLC088167)  
Regd. Office: 'Rasoi Court', 20 Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001  
Ph: 033 22480114/15, Email Id: [investors@jlmorison.com](mailto:investors@jlmorison.com), Website: [www.jlmorison.com](http://www.jlmorison.com)

**Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30<sup>th</sup> September, 2022**

SR.No.	Particulars	Quarter ended		
		30-09-2022	30-09-2021	30-09-2022
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1.	Total income from operations (net)	3,674.01	2,972.36	7,014.08
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and /or Extra ordinary items)	244.34	205.52	438.39
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and /or Extra ordinary items)	244.34	205.52	438.39
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and /or Extra ordinary items)	184.16	165.88	329.54
5.	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	658.18	2,223.32	630.89
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	136.50	136.50	136.50
7.	Other Equity	-	-	-
8.	Earning per Equity share ((of Rs. 10/- each) (Basic & Diluted))	13.49	12.15	24.14

**Notes:**  
1) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter year and half year ended 30th September, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website (<https://www.jlmorison.com>).

2) The above Un-Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 31<sup>st</sup> October, 2022 and the Statutory Auditors have carried out 'Limited Review' of the same.

3) Based on the "management approach" as defined in Ind AS 108 - Operating Segments, the Company is primarily engaged in the business of personal care products which the management recognises as the sole business segment. Hence, disclosure of segment-wise information is not required and accordingly not provided.

4) In view of the continuous COVID 19 pandemic, the Company is taking adequate precautions for safety and wellbeing of its employees. The management, apart from considering the internal and external information up to the date of approval of these financial results, expects to recover the carrying amount of the assets including financial investments. The Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions and assess its impact on the operations of the Company.

5) Previous period figures have been rearranged / regrouped wherever considered necessary to conform to the presentation of the current period. All the figures of financial results have been rounded off to nearest lakh rupees.

For and on behalf of the Board of Directors of  
J. L. Morison (India) Limited  
Sd/-  
Sohan Sarda  
Executive Director & CEO  
DIN:00129782

Place : Mumbai  
Date: 31<sup>st</sup> August, 2022

**FRUITION VENTURE LIMITED**  
Registered Office: - 21-A, 3<sup>rd</sup> Floor Sawitri Bhawan, Commercial Comp Mukharji Nagar, New Delhi 110009  
Tel No: +91- 011-47082424, Email id: [info@unfi.in](mailto:info@unfi.in)

**Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.**  
This Advertisement is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirers namely Mr. Krishan Kumar Aggarwal citizen of India, currently residing at C-2101A, Sushant Lok-1, Gurgaon, Near Peach Tree, Gurgaon, Haryana-122001 ("Acquirer-1") and Mr. Nitin Aggarwal citizen of India, currently residing at C-2101A, Sushant Lok-1, Gurgaon, Near Peach Tree, Gurgaon, Haryana-122001 ("Acquirer-2") (Hereinafter Collectively referred to as "Acquirers"), pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, in respect of the open offer to acquire shares of Fruition Venture Limited ("FVL"/"Target Company"). The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published on Wednesday, 21st September, 2022, in Financial Express (English-All Editions), Jansatta (Hindi-All Editions), Lakshadweep (Marathi) Mumbai edition.

- Offer Price is Rupees 13.00 (Rupees Thirteen Only) per equity share.
- Committee of Independent Directors (Hereinafter referred to as "IDCs") of the Target Company recommends that the open offer price of Rupees 13/- per fully paid up equity shares is fair and reasonable based on the following reasons:
  - The Offer Price is higher than the price as arrived by taking into account valuation parameters and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies, which comes to Rupees 12.96/- per share.

The IDC's recommendation was published on 1st November, 2022 (Tuesday) in the same newspapers where Detailed Public Statement was published.

- This Offer is not a Competing Offer.
- The Letter of Offer dated 19<sup>th</sup> October, 2022 has been dispatched to the shareholders on or before Thursday, 27<sup>th</sup> October, 2022.
- A Copy of the Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) will also be available on SEBI's website ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) during the offer period and shareholders can also apply by downloading such forms from the website. Further, in case of non-receipt/ non-availability of the form of acceptance, the application can be made on plain paper along with the following details:

Name(s) & Address(es) of Joint Holder(s) if any, Number of Shares held, Number of Shares tendered, Distinctive Numbers, Folio Number, Original share Certificate(s) and duly signed share transfer form(s).

- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 28<sup>th</sup> September, 2022. All the observations made by SEBI vide letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RA-C-DCR-1/P/OW/2022/52374/1 dated 14<sup>th</sup> October, 2022 has been incorporated in the Letter of Offer.
- There have been no material changes in relation to the Open Offer since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the DPS, Corrigendum to DPS and the Letter of Offer.
- Details regarding the status of Statutory & Other Approvals: No statutory approvals required for the purpose of this offer.

**Schedule of Activities:**

S. No	Activity	Original Schedule (Days & Dates)	Revised Schedule (Days & Dates)
1.	Date of Public Announcement	Wednesday, September 14, 2022	Wednesday, September 14, 2022
2.	Date of Publication of Detailed Public Statement	Wednesday, September 21, 2022	Wednesday, September 21, 2022
3.	Filing of the Draft letter of Offer to SEBI	Thursday, October 13, 2022	Thursday, October 13, 2022
4.	Last Date for a Competitive Offer(s)	Thursday, October 13, 2022	Thursday, October 13, 2022
5.	Identified Date*	Tuesday, October 25, 2022	Tuesday, October 18, 2022
6.	Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Wednesday, November 02, 2022	Thursday, October 27, 2022
7.	Last Date for revising the Offer Price/ number of shares.	Friday, November 04, 2022	Monday, October 31, 2022
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Monday, November 07, 2022	Tuesday, November 01, 2022
9.	Date of Publication of Offer Opening Public Announcement	Wednesday, November 09, 2022	Wednesday, November 02, 2022
10.	Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date)	Thursday, November 10, 2022	Thursday, November 03, 2022
11.	Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date)	Wednesday, November 23, 2022	Thursday, November 17, 2022
12.	Last Date of communicating rejection / acceptance and payment of consideration for applications accepted / return of unaccepted share certificates / credit of unaccepted equity shares to demat account	Wednesday, December 07, 2022	Thursday, December 01, 2022

\*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement and also shall be jointly or severally responsible for the fulfillment of the obligations under the Offer and as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.

This Pre Issue Advertisement will also be available on SEBI's website at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

**D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED**  
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.  
Tel: 011-41326121/40167038  
E-mail: [investors@dnafinserve.com](mailto:investors@dnafinserve.com)  
Contact Person: Mr. Priyaranjan

Date : 01.11.2022  
Place: New Delhi

**Tamilnadu Petroproducts Limited**  
Regd. Office: Manali Express Highway, Manali, Chennai 600 068  
CIN:L23200TN1984PLC010931 Phone /Fax: No. 044-25945588, 69185588.  
website: [www.tnpetro.com](http://www.tnpetro.com) Email: [secy-legal@tnpetro.com](mailto:secy-legal@tnpetro.com)

**EXTRACT FROM THE STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>th</sup> SEPTEMBER 2022**

Sl.no	Particulars	Consolidated (₹ in lakh)			
		Quarter ended			Year ended 31-Mar-22 Audited
		30-Sep-22 Unaudited	30-Jun-22 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	
1	Total Income from operations	60,395	55,602	45,972	1,80,558
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	4,039	3,875	6,235	23,641
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	4,039	3,875	6,235	23,641
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,788	2,881	4,647	17,536
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,269	3,463	4,609	17,984
6	Equity Share Capital	8,997	8,997	8,997	8,997
7	Reserves excluding Revaluation Reserve	-	-	-	65,820
8	Earnings Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing operations) Basic and Diluted*(not annualized)	3.1*	3.2*	5.17*	19.49

